



Government Mahamaya College, Ratanpur

495 442

District – Bilaspur (CG)

Website: www.gmcratanpur.ac.in; Phone/ Mobile : 07753-255490, 9300311524, 8962311524,
Email: gmc_ratanpur@rediffmail.com; pri-mratanpur.cg@gov.in; col-mratanpur.cg@gov.in

ACTION TAKEN REPORT 2020-21

पाठ्यक्रम विस्तार / सीट वृद्धि/ प्रवेश

वर्तमान सत्र में नए स्व-वित्तीय पाठ्यक्रम DCA, PGDCA, M. Com. प्रारंभ करने हेतु उच्च शिक्षा विभाग, छ.ग. शासन से अनुमति एवं अटल बिहारी बाजपेई विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सम्बद्धता प्राप्त कर, नए पाठ्यक्रम प्रारंभ किये गए.

शासन से अनुमति/ वि.वि. से संबद्धता उपरांत बीएससी बायो में 30 और बीए में 40 सीट वृद्धि की गई। इस सत्र में प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या में गत वर्ष से 18.5% की वृद्धि हुई.

कैरियर मार्गदर्शन, स्किल डेवलपमेंट हेतु प्रयास

महाविद्यालय में टाटा इंस्टिट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज एवं बिलासपुर वि.वि. द्वारा संचालित NUSSD (नेशनल यूनिवर्सिटी स्किल डेवलपमेंट) योजना के अंतर्गत बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं में डिप्लोमा (37 विद्यार्थी) और रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटल और सर्विस मैनेजमेंट (23 विद्यार्थी) में डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित किया गया।

आधारभूत संरचना विकास

रूसा अंतर्गत रु. 70 लाख के रेनोवेशन प्रस्ताव की प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कर, लोक निर्माण विभाग को प्रस्तावानुसार कार्य करने हेतु निर्देशित किया गया.

महाविद्यालय ग्रंथालय हेतु N-LIST सुविधा का नवीनीकरण, उद्यान में 6 नए सीमेंट चेयर स्थापित किया गया, क्रीडा विभाग के सामने चबूतरे का जीर्णोद्धार किया गया, सभी भवनों में अग्निशामक यंत्र स्थापित किए गए, परिसर में नए शेड लगाए गए, जल संरक्षण हेतु 3 सोखता गड्ढे का निर्माण, रूसा भवन के समस्त कक्षों में कक्षा और नाम की पट्टिका लगाई गई और मुख्य द्वार पर गेट कीपर हेतु शेड लगवाया गया।

वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा विभिन्न मदों में आबंटित राशी का अधिकाधिक उपयोग करने का प्रयास किया गया.

नैक मूल्यांकन एवं प्रत्यायन हेतु प्रयास

महाविद्यालय के नैक मूल्यांकन हेतु सत्र में 5 वर्षों का AQAR तैयार कर पोर्टल में जमा

किया गया. मूल्याङ्कन हेतु परिसर में आवश्यक विकास कार्य जैसे, पोस्टर, बैनर, वृक्षों पर नाम की पट्टिकाए, डायरेक्शन बोर्ड आदि स्थापित करने के साथ ही, विभिन्न क्राइटेरिया की जानकारी संकलित कर SSR निर्माण के सम्बन्ध में आवश्यक तैयारी की गई एवं दि. 18/03/2021 को IIQA, नैक पोर्टल में जमा किया गया.

महाविद्यालय के विभिन्न विभागों, आईक्यूएसी, एनएसएस इकाई के द्वारा आयोजित गतिविधियाँ

	शैक्षणिक सत्र में महाविद्यालय के विभिन्न विषयों के शिक्षकों ने 75 से अधिक विडियो बनाकर पोर्टल cgschool में अपलोड कर महाविद्यालय वेबसाइट में लिंक दिया गया.
28/4/2020	महाविद्यालय के विद्यार्थियों को cgschool.in पोर्टल में पंजीकृत होने बाबत विडियो बनाकर whatsapp के माध्यम से शेयर किया गया.
9/5/2020	विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यमों से अभ्यस्त करने हेतु लाकडाउन पर उनके अनुभव को गूगल फॉर्म की सहायता से प्राप्त किया गया.
21 से 25 मई 2020	विद्यार्थियों से महाविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन, क्रीडा, ग्रंथालय, कम्प्यूटर, हरियाली, स्वच्छता आदि से संबन्धित वार्षिक फीडबैक ऑनलाइन गूगल फॉर्म की सहायता से लिया गया (प्रतिभागी विद्यार्थी 315).
18/5/2020	ऑनलाइन कॉमर्स IQ टेस्ट आयोजित किया गया (प्रतिभागी 89 विद्यार्थी)
31/5/2020	एक भारत श्रेष्ठ भारत पर ऑनलाइन क्विज़ आयोजित किया गया (प्रतिभागी 193 विद्यार्थी)
5/6/2020	विश्व पर्यावरण दिवस पर ऑनलाइन क्विज़ (1041 प्रतिभागी)
10/6/2020	New Perspective in Management & Career Growth पर वेबिनार आयोजित किया गया (172 प्रतिभागी), मुख्य वक्ता प्रो. शिशिर पांडे, भवदीय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, अयोध्या.
18/6/2020	ऑनलाइन फिजिक्स क्विज़ आयोजित (1028 प्रतिभागी)
21/6/2020	विश्व योग दिवस पर “घर पर योग एवं परिवार के साथ योग” पर विद्यार्थियों के फोटो संगृहीत कर पुरस्क्रत किया गया. इस अवसर पर ऑनलाइन क्विज़ प्रतियोगिता भी आयोजित की गई. (957 प्रतिभागी)
14/7/2020 से 20/7/2020	कम्प्यूटर जागरूकता पर ऑनलाइन आंतरिक फ़ैकल्टी विकास प्रशिक्षण (वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, विडियो बनाना, ईमेल, व्हात्सप्प उपयोग, गूगल

	फॉर्म बनाना, NLIST उपयोग) आयोजित।
31/7/2020	मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर ऑनलाइन वेबिनार आयोजित किया गया, मुख्य वक्ता प्रो. नंदिनी तिवारी, शास. बिलासा कन्या महा, एवं श्री रमाकांत चंदेल, राजभाषा अनुभाग, एनटीपीसी सीपत.
2/8/2020 एवं 7/1/2021	NUSSD पाठ्यक्रम हेतु ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
5/8/2020	ऑनलाइन कॉमर्स क्विज़ प्रतियोगिता (78 प्रतिभागी)
8/8/2020	रोजगार और उच्च शिक्षा के लिए विज्ञान विषय पर वेबिनार, मुख्य वक्ता डा एस जे ढोबले, नागपुर वि वि (92 प्रतिभागी)
10 से 12/8/20	भारतीय अर्थव्यवस्था पर ऑनलाइन सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी (कुल प्रतिभागी 1024)
14/9/2020	हिन्दी दिवस पर ऑनलाइन प्रश्नोत्तरी आयोजित की गई (कुल प्रतिभागी 1930)
17/11/2020	डिजिलाकर में पंजीयन हेतु विद्यार्थियों को प्रेरित किया गया (78 प्रतिभागी)
9/12/2020	विश्व एड्स दिवस पखवाडा अंतर्गत महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन क्विज़ (91 प्रतिभागी)
16/1/2021	रा. से. यो. के स्वयंसेवको हेतु ऑनलाइन उन्मुखीकरण कार्यक्रम
23/1/2021	नेताजी सुभाष चंद्र की जयंती पर ऑनलाइन परिचर्चा आयोजित
25/1/2021	राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर रंगोली, पोस्टर, नारालेखन, निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई (54 प्रतिभागी) एवं मतदान की शपथ ली गई (365 प्रतिभागी)।
29/1/2021	वित्तीय शिक्षा जागरूकता पर बीएसई एवं एनआईएसएम मुंबई के सहयोग से वेबिनार आयोजित किया गया (174 प्रतिभागी). मुख्य वक्ता डा. शैलेश द्विवेदी, गु. घा. वि. वि., बिलासपुर.
8 से 10/2/2021	कौन बनेगा सड़क सुरक्षा के अंतर्गत पेंटिंग, रंगोली, स्लोगन प्रतियोगिता.
8/3/2021	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर घासीपुर की महिला स्व सहायता समूहो का

अभिनंदन

22/3/2021

वित्तीय शिक्षा जागरूकता पर SEBI के सहयोग से वेबिनार आयोजित किया गया (194 प्रतिभागी)

शोध एवं अन्य कार्य

महाविद्यालय के शिक्षकों द्वारा कई राष्ट्रीय /अंतरराष्ट्रीय पत्र/पत्रिकाओं तथा संगोष्ठियों में शोध पत्र प्रकाशित एवम प्रस्तुत किये गये तथा उनके द्वारा अकादमिक विकास हेतु उन्मुखीकरण/ पुनश्चर्या कार्यक्रमों मे भी भाग लिया गया.




(DR. R. S. KHER)
Principal
Govt. Mahamaya College,
Ratanpur, Distt. Bilaspur (C.G.)